



13.07.2020

प्रेस नोट

कक्षा XII परीक्षा 2020 के परिणाम घोषणा की अधिसूचना

सीबीएसई द्वारा आयोजित कक्षा XII परीक्षा-2020 का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। हितधारकों को निम्न सूचित किया जाता है: -

1) नेट पर परिणाम

पिछले वर्षों की भाँति, इस वर्ष भी सीबीएसई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तकनीकी समर्थन से नेट पर अपने परिणाम घोषित कर रहा है। विद्यार्थी निम्नलिखित वेबसाइट के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं:

www.cbse.nic.in
www.cbseresults.nic.in
www.results.nic.in

विद्यालयों को बोर्ड द्वारा पहले से बताए गए नए ईमेल आईडी पर अपना पूरा स्कूल परिणाम स्वतः प्राप्त होगा।

2) डिजिटल पटलों और मोबाइल पर सीबीएसई परिणाम

वर्ष 2016 में प्रारम्भ करके इस वर्ष भी, सीबीएसई अपने स्वयं के शैक्षणिक भंडार 'परिणाम मंजुषा' के माध्यम से कक्षा X और कक्षा XII के शैक्षणिक दस्तावेज (अंक-पत्रक, प्रवास प्रमाण पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और कौशल प्रमाण पत्र, जो भी लागू हो) प्रदान करेगा जो <https://digilocker.gov.in> पर डिजीलॉकर से एकीकृत है।

2.1 डिजीलॉकर से प्रमाण पत्र प्राप्त करें!

डिजीलॉकर में भी विद्यार्थियों के डिजिटल अंक-पत्रक, प्रवर्जन प्रमाण पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और कौशल प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए Google Play (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digilocker.android>) या Apple ऐप स्टोर (<https://apps.apple.com/in/app/digilocker/id1320618078>) से डिजीलॉकर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। लॉगिन करने के लिए, सीबीएसई पंजीकृत मोबाइल नंबर, ओटीपी का उपयोग करें और सुरक्षा पिन के रूप में अपने रोल नंबर के अंतिम 6 अंक दर्ज करें।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092



Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



- विद्यार्थियों को डिजिलॉकर खाता संबंधी क्रेडेंशियल्स पहले ही सीबीएसई के साथ पंजीकृत उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेज दिए गए हैं।

2.2 UMANG मोबाइल ऐप पर अपना रिजल्ट प्राप्त करें

- न्यू एज गवर्नेंस के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन, UMANG, प्रमुख केंद्र और राज्य सरकार सेवाओं के लिए एकल बिंदु एक्सेस हेतु एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है।
- विद्यार्थी अपना परिणाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, की UMANG मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं जो Android, IOS और Windows आधारित स्मार्ट फोन और www.umang.gov.in पर भी उपलब्ध है।
- विद्यार्थी अपनी अंक-तालिका और अन्य डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेजों को देखने के लिए UMANG ऐप पर डिजिलॉकर ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

3) आईवीआरएस पर परिणाम (इंटरएक्टिव वोइस रिस्पॉस प्रणाली)

एनआईसी के टेलीफोन नंबर इस प्रकार हैं जिनके माध्यम से आईवीआरएस के माध्यम से परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं:

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

दूरभाष संख्या	आवृत्त क्षेत्र
24300699	दिल्ली में स्थानीय अभिदाताओं के लिए
011-24300699	देश के अन्य हिस्सों में अभिदाताओं के लिए

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092



Phone (off.): 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in